



# VAIBHAV GLOBAL LIMITED

Ref: VGL/CS/2025/122

Date: 9<sup>th</sup> December, 2025

**National Stock Exchange of India Limited (NSE)**

Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra, Mumbai – 400 051

**Symbol: VAIBHAVGBL**

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 532156**

**Subject: Newspaper Publication – Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares**

Dear Sir / Madam

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in reference to the captioned subject, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, please find enclosed copies of the newspaper publication published in Financial Express (English edition) and Business Remedies (Hindi edition) on 9<sup>th</sup> December, 2025.

The same is also available on the Company's website at [www.vaibhavglobal.com](http://www.vaibhavglobal.com).

This is for your information and records.

Yours Truly,

**For Vaibhav Global Limited**

**Yashasvi Pareek**

**Company Secretary & Compliance Officer**

**M. No.: A39220**

*Encl: as above*



## Vaibhav Global Limited

Regd. Off.: E-69, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur – 302022, Rajasthan, India  
Phone : +91-141-2771975; CIN : L36911RJ1989PLC004945  
Email : investor\_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com

### SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, notice is hereby given to all the shareholders that of Vaibhav Global Limited are hereby informed that a special window has been opened from 7<sup>th</sup> July, 2025 to 6<sup>th</sup> January, 2026, for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 for transfer of physical shares and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Shareholders who wish to avail the opportunity are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at einward.ris@kfintech.com; Contact number: 1-800-309-4001, Unit: Vaibhav Global Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serlingampally, Hyderabad - 500 032

For Vaibhav Global Limited  
Sd/-  
Yashashvi Pareek  
Company Secretary  
Membership No.: A39220

Place: Jaipur  
Date: 8<sup>th</sup> December, 2025

### "Form No. INC-26"

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another  
Before the Central Government  
Northern Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **AMAZING PRODUCTS PRIVATE LIMITED** having its registered office at **205, LOCAL SHOPPING COMPLEX, POCKET-B, PHASE-III ASHOK VIHAR, DELHI, 110052**, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 29th August, 2025 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address **"THE REGIONAL DIRECTOR, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003"**, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

**"205, LOCAL SHOPPING COMPLEX, POCKET-B, PHASE-III ASHOK VIHAR, DELHI, India, 110052"**

For and on behalf of the Applicant

Signed: .....  
SUMEET KALHAN  
Director  
DIN: 07392246  
Date: 29/08/2025  
Place: Delhi.

### OVAL PROJECTS ENGINEERING LIMITED

Registered office: House No.451568, Milan Chakra, (Near Prajapita Brahmakumari Centre), Badharghat, P.O. A., D. Nagar, Agartala, Tripura, 799003  
CIN: L74900TR2013PLC008465

Email : ovalprojects@gmail.com, cs@ovalprojects.com  
Website : www.ovalprojects.com

### INFORMATION REGARDING NOTICE OF 12<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND REMOTE E-VOTING

The notice is hereby given that:

## PUBLIC NOTICE

### Invitation for submission of bids in the Private

Corporate Power Limited ("CPL/ Corporate Debtor/ Company") is in liquidation under the provisions of and Bankruptcy Code 2016 ("Code") and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process Regulations, 2016 ("Liquidation Process Regulations") pursuant to the order of the Hon'ble National Tribunal, Kolkata ("NCLT") dated October 08, 2021, whereby Mr. Pankaj Dhanuka has been appointed as Liquidator.

Notice is hereby given for inviting submission of bids from persons interested in the private sale of the Corporate Debtor as a going concern, at a price higher than Rs. 265 Crores i.e., the reserve price ("Reserve Price") incremental amount of at least Rs. 5 Crores i.e., the bid submitted should be for an amount greater than the Price of Rs. 265 Crores by at least Rs. 5 Crores. The private sale of the Corporate Debtor as a going concern conducted on an "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "no recourse to any representation(s), warranties or indemnity by the Liquidator or the Corporate Debtor, in accordance with the schedule, terms and conditions set out hereunder and applicable sale process document ("Process Document").

### RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	Corporate Power Limited
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	May 11, 2006
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Companies Act, 1956/Registrar of Companies, Kolkata
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of Corporate Debtor	U27106WB2006PLC150110
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	Regd. Office: FE-83, Sector-III Salt Lake City, Ground Floor West Bengal 700106 India Plant: At Bana, Chandwa Block, District Lathehar, Jharkhand
6.	Liquidation commencement date of the Corporate Debtor	October 08, 2021, the order passed by Hon'ble NCLT, Kolkata uploaded on October 11, 2021
7.	Name, address, email address, telephone number and the registration number of the Liquidator	Name: Mr. Pankaj Dhanuka Registered Address with IBBI: FE 328, Sector 3, Salt Lake City West Bengal – 700106 Registered Email Address: <a href="mailto:pankajdhanuka@gmail.com">pankajdhanuka@gmail.com</a> Telephone: +91 98300 18128 Registration No.: IBBI/PA-001/IP-P01205/2018-2019/11911 Communication Address: Deloitte India Insolvency Professionals 13th Floor, Building – Omega, Bengal Intelligent Park, Block Sector – V, Salt Lake City, West Bengal 700091 Communication Email Address: <a href="mailto:incplip@deloitte.com">incplip@deloitte.com</a>
8.	Asset on Sale*	Corporate Debtor as a going concern on an 'as is where is', 'as is how is' and 'without any recourse' basis, without any warranty or indemnity by the Corporate Debtor or the Liquidator, subject to such description, inclusion, and exclusion of assets as provided in the Process Document.
9.	Reserve Price	Rs. 265 Crores (Indian Rupees Two Hundred and Sixty-Five Crores)
10.	Earnest Money Deposit ("EMD") requirement	Rs. 26.50 Crores (Indian Rupees Twenty-Six Crores and Fifty Lakhs)
11.	Minimum Incremental Amount	Rs. 5 Crores (Indian Rupees Five Crores only)
12.	Mode of Sale	The mode of sale is a private sale as per meaning under the Liquidation Process Regulations, through an auction on the e-Bid Platform among the interested bidders on the Bid Submission Platform.
13.	Terms of Sale	As per the Process Document.
14.	Manner of Obtaining the Process Document	The detailed terms and conditions of the sale process will be provided in the Process Document, as amended from time to time, which can be obtained by the interested bidders by sending an email request at <a href="mailto:incplip@deloitte.com">incplip@deloitte.com</a>
15.	Last Date for Inspection including due diligence, site visits and seeking clarifications and submission of Diligence Documents	January 02, 2026 (Subject to the submission of Diligence Documents)
16.	Last Date for Submission of Eligibility Documents on the Baanknet Platform	January 02, 2026
17.	Last Date for submission of EMD	January 02, 2026
18.	Competitive Bidding Date and Time ("Bid Submission Date")	Competitive Bidding Start Date & Time: January 05, 2026 from 10:00 AM to 12:00 PM Competitive Bidding End Date & Time: January 05, 2026 till 12:00 PM
19.	Manner of Submitting Bid	Interested bidders must submit their eligibility documents, bid documents and EMD strictly as per format and documents as set out specific in the Process Document. The Bids will be submitted and auction will be conducted through the Baanknet portal in accordance with the auction process guidelines issued by IBBI and available at <a href="https://ibbi.gov.in/en/home/psb-allia">https://ibbi.gov.in/en/home/psb-allia</a> . The bidders are requested to familiarize themselves with the auction process guidelines issued by IBBI. The detailed manner of the conduct of the private sale process will be set out in the Process Document from time to time.

### Broad Process:

1. All persons interested in bidding for the Corporate Debtor on a going concern basis can conduct due diligence and submit bids on the e-Bid Platform from January 02, 2026 to January 05, 2026 till 12:00 PM.



